

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 389]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-87/2019/18.—छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत पत्थलगांव, जिला-जशपुर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :—

1. पत्थलगांव नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है।

2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	महात्मा गांधी वार्ड
2	अम्बेडकर नगर वार्ड
3	भगत सिंह वार्ड
4	विवेकानंद वार्ड
5	पं.जवाहर लाल नेहरू वार्ड
6	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
7	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
8	सुभाषचन्द्र वार्ड
9	शंकराचार्य वार्ड
10	शिवाजी वार्ड
11	राजीव गांधी वार्ड
12	चन्द्रशेखर वार्ड
13	राधाकृष्णन वार्ड
14	लोकमान्य तिलक वार्ड
15	संत विनोबा भावे वार्ड

पथलगांव नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क्र.-01 महात्मा गांधी वार्ड

- उत्तर - बीटीआई चौक से होते हुए इसदोर मिंज के मकान, पास्कल पन्ना, फौजी घर से दुल्ली राम, बनसाय घर से होते हुए RAHA होते हुए बेंजामिन के मकान से रोड़ किनारे होते हुए दीपक के मकान तक ।
- दक्षिण - मेरी तिर्की के मकान होते हुए पौलूस टेलर्स के मकान एवं मेन रोड़ किनारे होते हुए राऊत मोहल्ला तक ।
- पूर्व- कदम घाट, प्रदीप गुरुजी मकान, गोमें मकान, जयपाल मकान, जोसेफ, प्रदीप मकान से होते हुए डॉ. बी.एल. भगत के मकान तक ।
- पश्चिम- अकबर गुरुजी के मकान से जुलयुस मकान होते हुए ज्वाकिम देवरा के मकान से पियुष के मकान होते हुए प्राथमिक स्कूल तक ।

वार्ड क्र.-02 अम्बेडकर नगर वार्ड

- उत्तर - आशादीप से मुख्य मार्ग होते हुए प्रकाश स्कूल बहादुर के मकान से प्रकाश स्कूल के पीछे तथा मुख्य मार्ग बहादुर के मकान पुरान मुर्गी फर्म लखन गली तक ।
- दक्षिण - दादू राम, पृथ्वी राम के मकान, बुलुराम, कृपाराम के घर होते हुए रमेश शर्मा घर तक ।
- पूर्व- अन्ना राम के घर से रामदेव चौहान घर होते हुए रामचरण पटेल के घर से रोहित मिर्रे घर होते हुए बटु घर से माघो घर होते हुए राम प्रसाद घर से प्राथमिक स्कूल तक ।
- पश्चिम- एलआईसी अभिकर्ता के घर, दुखिया कर्मा के घर होते हुए मुख्य मार्ग होते हुए विनोद अग्रवाल टेंट वाला के घर तक ।

वार्ड क्र.-03 भगत सिंह वार्ड

- उत्तर -** सेंट जेवियर्स स्कूल से होते हुए अशोक शर्मा घर से स्टेला एक्का, बुधनी केरकेट्टा, रफैल के मकान से होते हुए रोशन, अनिमा टोप्पो, कश्मीर तिग्गा लच्छू बरवा के मकान से संजय टोप्पाके के किराया मकान, संतन्ना मिशन छात्रवास तक।
- दक्षिण -** राजा राम घर से विच्छी घर होते हुए पौलूस घर होते हुए राम-लक्ष्मण घर तक।
- पूर्व-** विजय लकड़ा के घर से महावीर के घर होते हुए चंचल प्रेस मोहल्ला तथा शैलेश घर से लेकर सागरमल शर्मा घर होते हुए शंकर रोहिला घर तक।
- पश्चिम-** बहादुर खाखा से होते हुए विमला घर से होते हुए जितू भगत के घर से मंगना लकड़ा के घर तक।

वार्ड क्र.-04 विवेकानंद वार्ड

- उत्तर -** सदानंद कुर्रे घर से सोहन वर्मन हेते हुए जितेन घर, सत्यनारायण घर होते हुए कन्हैया घर, चमरु घर, धनी राम घर भरत घर, भीम घर, जैत खम्भ से प्राथमिक शाला स्कूल तक।
- दक्षिण -** खेमानिधि चौधरी के घर से देवकुमार चौधरी घर से यादव मोहल्ला एवं अजय दुबे से परमा यादव घर से एसडीएम गली होते हुए बलभद्र अग्रवाल के मकान, रवि शर्मा गोल्डी जायसवाल के घर से सीडी ज्वेलर्स तक।
- पूर्व-** चंदराम घर से शोभनाथ घर मूलचंद घर, मोहन लाल घर, दाशी शंकर घर, बीर सिंह घर उत्तरा पंकज घर सुरेश गुप्ता घर होते हुए मंगलेश ओझा के घर पुक राम घर चमरु घर से राजेश, जगत राम नायक घर से के.के. पटेल घर से विश्वनाथ साहू घर होते हुए देवीदयाल के घर तक।
- पश्चिम-** निताई बंगाली घर से रेवाधीवर घर गणेश प्रसाद अग्रवाल घर मुख्यमार्ग होते हुए रामलाल अग्रवाल घर एवं करमू कालोनी होते हुए सिन्दर भाटिया घर से सेन्ट्रल बैंक से मुख्य मार्ग किनारे हेते हुए मुन्ना महाराज से त्रिलोक शर्मा घर तक।

वार्ड क्र.-05 पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड

- उत्तर -** जगतु मोहल्ला से कुम्हार घर होते हुए राजाराम के किराया मकान से राम निवास किराना दुकान से मांगेराम अग्रवाल किराना दुकान से पूजा सेन्ट्रींग प्लेट घर तक।
- दक्षिण -** श्यामलाल साहू घर से सोहराई मोहल्ला से सोना राम बुधराम मकान तक।
- पूर्व-** श्रृंगारिका कालोनी से रामचरण अग्रवाल घर होते हुए दुर्गा मंदिर से आनन्द शर्मा घर से चक्रवर्ती मोहल्ला से पवन शर्मा के घर से बंसत शर्मा के घर मुख्यमार्ग किनारे होते हुए आशीर्वाद गारमेट से विनोद अग्रवाल के आगे कच्चा मकान तक।
- पश्चिम-** हबुचंद घर झगोराम घर होते हुए चर्च कालोनी दरश घर पातर साय घर से मालिक घर छन्दू कुटीया घर लगुन से श्यामलाल बघेल घर तक।

वार्ड क्र.-06 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

- उत्तर -** राज ऑटो के मील से छत्त राम घर, महावीर शर्मा के घर होते हुए जोहन के घर से बाबुलाल घर ठाकुर राम घर एवं महेश के घर होते हुये आंगन बाड़ी सामुदायिक भवन तक।
- दक्षिण -** झड़ी राम घर से चर्च होते हुए चितरु राम घर से नया मकान से प्रेम खाखा के मकान तक।

- पूर्व- धुमरा घर से गेश राम घर होते हुए रोन्हा घर अमृत मिंज से प्रभाधारी से मनोज अग्रवाल घर होते हुए विकास नगर तथा सुकुल कॉलोनी तक।
- पश्चिम - चम्मू मोहल्ला से इमानवेल एल आई सी वाला घर बहल साय घर प्राथमिक शाला स्कूल तक।

वार्ड क्र.-07 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

- उत्तर - बिजली आफिस से प्रितमा टॉवर से बजरंग घर होते हुए संतोषी मंदिर मोहल्ला हनुमान अग्रवाल घर से मेर्खालो मैडम के घर तक।
- दक्षिण - बलराम घर से चांदी बाई घर से नवीन, जोगपाल स्कूल होते हुए गहीरा आश्रम तक।
- पूर्व- चन्द्रभान अग्रवाल के घर होते हुए अजित खेस घर से मया राम घर, चौहान मोहल्ला से सतीश बड़ा घर तक तथा घुराउ मोहल्ला होते हुए जलसाय गुरुजी घर में रोड़ से सुचिता घर मोहन मोहल्ला से प्रकाश घर तक।
- पश्चिम - हरिहर घर से अमृत मोहल्ला बच्चा सिंह से सामुएल तिग्गा से दिलसाय मोहल्ला तक।

वार्ड क्र.-08 सुभाष चन्द्र वार्ड

- उत्तर - मुस्लीम गैरेज से शारदा मंदिर, श्यामसुन्दर सिन्हा के मकान होते हुए गुणवन्त राय नामदेव के घर रमेश राम, किशन घर से धुरीन रजक घर से दलपती साय घर होते हुए निराकार घर प्रसन्न घर सिदार घर मनत राम चौहान रमेश लाल चेतवानी का मकान होते हुए कलावती के मकान श्यामसुन्दर साहू तथा हरिश मेहरा के घर से मनोज बोजे के घर तक।
- दक्षिण - रंजित एक्का घर, बालक घर, मोहन मोहल्ला होते हुए सरदार घर से मुख्य मार्ग दुईया राम तक।
- पूर्व- सुनिता एक्का घर से देवसाय घर से अमर साय घर से सुरज तिर्की घर से मुख्य मार्ग होते हुए सुखनाथ घर से बलकु घर से मंगल साय घर होते हुए बिस्कुट फैक्ट्री से मुख्य मार्ग होते हुए सुकटी पारा इंदल घर से सारसमाल रोड़ सिदार घर तक।
- पश्चिम- राजेन्द्र एक्का मोहल्ला से हीरा मिंज फिलिसिता तिर्की घर से एल डी चेतवानी घर से शिशिर घर मोहल्ला से मिथलेश घर चन्द्रशेखर त्रिपाठी काम्पलेक्स से मुख्यमार्ग होते हुए प्रदीप गुप्ता घर से शिवकुमार घर से लक्ष्मी कान्त सोनी घर होते हुए राय सर से भुनेश्वर सिन्हा घर तक।

वार्ड क्र.-09 शंकराचार्य वार्ड

- उत्तर - श्रवण पाण्डे घर से अनवर अली घर रमाशंकर डनसेना घर से होते पब्लिक स्कूल कालोनी से ईश्वर प्रसाद गुप्ता घर से भोदली घर से होते हुए बीर सिंह डनसेना घर से विजय इण्डेन गैस गोदाम से राजेन्द्र रोहिला घर तक।
- दक्षिण - सदानंद मैत्री घर से राधेश्याम मैत्री घर से होते हुए केन्दा घर कुजूर घर से कदम किनारे अगम साय घर से सीता गिरी घर से होते हुए संतोष विश्वकर्मा चटटान पारा मीरा प्रधान अशोक निकुज घर तक।
- पूर्व- सेवा भारती घर से लाल साय घर से शंकर सिदार घर होते हुए मोहमद अलताब मोहल्ला से निजामुददीन घर मस्जिद मोहल्ला से निरंजन के किराया मकान तक।
- पश्चिम - निरंजन सामंत घर आईडिया टॉवर से पशु चिकित्सालय से एसडीओ एरिकेशन क्वार्टर से पीडब्ल्यू डी कार्यालय से पारसराम भोय क्वार्टर से निराला क्वार्टर से सीआईडी भगत घर तक।

वार्ड क्र.-10 शिवाजी वार्ड

- उत्तर -** करमचंद अग्रवाल काम्पलेक्स से पुराना तहसील, मण्डी, शनि मंदिर, जिम्मी लॉज जोगध्यान अग्रवाल घर, वन विभाग के पीछे मोहल्ला तक।
- दक्षिण -** कुलोमणि साहू घर से रविकान्त शर्मा, मशाला वाला घर होते हुए पटवारी घर द्रोपदी मैडम, लिटिल रोज स्कूल होते हुए नामदेव घर, शर्मा घर, सुशील घर, अशोक हरिकिशन के मकान, बिजली ऑफिस तक।
- पूर्व-** पुराना नगर पंचायत कार्यालय से तारचंद, सामंत घर, सत्यनारायण घर, निशामुद्दीन घर से वेदप्रकाश मिश्रा घर होते हुए मुख्यमार्ग से विजय मेडिकल, लंजियापारा रोड़, दुबे घर से फेकन बाई घर तक।
- पश्चिम-** शासकीय कन्या छात्रावास से आंगनबाड़ी, शासकीय क्वार्टर से बीआरसी भवन, रामप्रताप अग्रवाल के घर से होते हुए मुख्यमार्ग, हरनाम सिंह के घर से कोयला फैक्ट्री गली विश्वनाथ शर्मा घर से होते हुए लखपत राय घर से साबुन फैक्ट्री के आगे तक।

वार्ड क्र.-11 राजीव गांधी वार्ड

- उत्तर -** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से डॉ.जेम्स मिंज घर होते हुए महंत घर मजीत भाटिया अनुप जिंदल प्रीतपाल एलआईसी भवन तक।
- दक्षिण -** सिंदर सिंह भाटिया के घर से हरजीत सिंह पवन अग्रवाल संजीव कुमार यादव घर से आगे पीपल पेड़ तक।
- पूर्व-** आत्मा राम साव घर से होते हुए हनुमान मंदिर बिन्देश्वरी शर्मा मकान के पीछे बलदेव रजत बलराम अग्रवाल के मकान से देवेन्द्र सिंह के मकान से ऊपर मस्जिद मोहल्ला होते हुए बलक राम यादव के घर से रोहित पटनायक घर तक पटेल घर तिर्की नर्स दखल मोहल्ला साहु घर हरिलाल घर दिलबोध घर थाना परिसर तक।
- पश्चिम-** प्राथमिक शाला पुराना बाजार पारा भवन से मुख्य मार्ग किशोर राजकुमार लोहा दुकान से सोसाईटी, शिशुमंदिर, जयंती मिंज वन विभाग क्वार्टर स्वास्थ्य विभाग क्वार्टर अर्जुन गुप्ता स्वर्ण सिंह तथा पटनायक के मकान से मोहमद हाफिज घर तक तथा प्रहलाद रोहिला जनपद पंचायत कालोनी से तहसीलदार बंगला बस स्टेण्ड से पुष्प वाटिका जोगपाल चिल्ड्रन स्कूल स्टेट बैंक अनिल पेट्रोल पम्प तक।

वार्ड क्र.-12 चन्द्रशेखर वार्ड

- उत्तर -** भीम सेन पटेल घर से महंत घर दयाशंकर पाण्डे घर होते हुए शरद सिंह घर तिवारी मकान डॉ. बसंत सिंह ठाकुर के मकान से होते हुए स्वर्णकार गुरुजी के मकान तक।
- दक्षिण -** लीटा राम के घर से घुरउ के भवन बनमाली के मकान से होते हुए खिती भूषण का मकान मनबोध के मकान से परमादास तथा मुरली ठाकुर के मकान से प्रेमसिंह घर तक तथा बगन चौहान घर तक तथा जय प्रसाद घर होते हुए कुन्दन घर मोहम्मद मुस्कान तक।
- पूर्व-** मोहन के घर से होते हुए देव सिंह के मकान फागुराम के मकान शिवा झाईवर के मकान तक तथा भान सिंह के मकान से जगरनाथ मंदिर होते हुए पदमन के मकान भानसिंह के किराया मकान घांसी राम के मकान होते हुए चिल्ड्रन गार्डन स्कूल से अशोक घर से माध्यमिक शाला पुरानीबस्ती तक।
- पश्चिम -** दुलार साय के मकान से धोबा घर से सोहन घर से बहादुर गुरुजी के मकान तक तथा मालती बाई घर से भरत वैष्णव के मकान होते हुए मनोज पटनायक के घर तक तथा विरंची घर से उमा बंजारीन घर होते हुए गुप्ता मोहल्ला से राम लाल घर बाबुलाल के घर से चिन्ना घर मांगे अग्रवाल के घर तक।

वार्ड क्र.-13 राधाकृष्णन वार्ड

- उत्तर -** शंकर ठाकुर घर से रमेश घर सूर्या चौहान घर से द्वारी घर तक तथा शांति चौहान घर से पवन विश्वकर्मा घर होते हुए महाराज विश्वकर्मा घर होते हुए उमेश घर से प्राथमिक स्कूल तक।
- दक्षिण -** ओ.पी. गुप्ता घर से घसिया राम पटेल घर पब्लिक स्कूल मोहल्ला होते हुए जमुना घर से अनवर अली के मकान से प्रेमनगर लुन्दा राम लघु राम प्रभुराम घर से वितन घर मनीराम घर से शोभनाथ गुप्ता घर होते हुए रोड़ किनारे भैयाराम देव साय घर से बाबा महाराज के घर तक।
- पूर्व-** सुनील मिश्रा घर से रोड़ किनारे होते हुए अमरदास वैष्णव घर से शिवमंदिर होते हुए गुप्ता किराना दुकान से दुग्ध डेयरी तक।
- पश्चिम -** शकुन्तला नामदेव घर से घुरउ नामदेव घर होते हुए सूरजमनी घर तक तथा फिरनी विश्वकर्मा घर से रामप्रसाद सिदार घर, रातु राम यादव घर, चेतवानी का किराया मकान तथा बदुरुदीन के मकान रामकुमार पटेल के घर से टीकाराम घर एवं गिरधारी घर से सदानंद मैत्री के घर तक।

वार्ड क्र.-14 लोकमान्य तिलक वार्ड

- उत्तर -** सुमित्रा ठाकुर घर से मुख्य मार्ग होते हुए सत्यनारायण के मील से जीतन गुरुजी घर होते हुए विद्या तिवारी यदुनाथ यादव देवेश अग्रवाल घर से होते हुए आयुशी मोटर्स पार्ट्स गुरुकुल जयकिशन घर होते हुए शहगल ट्रैक्टर वर्कशॉप तक।
- दक्षिण -** बोधसाय के मकान से रोड़ किनारे सहदेव के घर विजय के मकान राम प्रसाद के घर से रामानंद घर से महादेवा मिक्चर दुकान दशरथ गुप्ता से कान्ती सिदार घर तक।
- पूर्व-** गेंदालाल पटेल घर से होते हुए रामप्रसाद सोनी घर होते हुए चौहान मोहल्ला आंगनबाड़ी भवन से विहानु घर से नान्हु घर तथा गंगा राम पटेल कवलधर प्रमानंद हुन्दरराम हिरालाल यादव के आगे से जीवनलाल घर मनोहर पटेल बलदेव नायक तथा गुप्ता के मकान से आई टोप्पो के मकान मुक्तिधाम गुह निर्माण मण्डल तथा गुरुकुल कालेज के पीछे मोहल्ला।
- पश्चिम -** मधुर साय के मकान से मुन्ना घर से विधायक के घर से विजय पटेल घर तक तथा दीपा घर से होते हुए ठाकुर घर से सुवन घर से सुखनंदन घर सत्यनारायण जय टेलर विनेश्वर गुप्ता घर तथा रेवा घर से होते हुए अशोक गुप्ता के घर मीदू घर से सार्थी मोहल्ला तथा निर्मला सिदार घर से सार्थी मोहल्ला से आगे कलेश्वर के मकान तक।

वार्ड क्र.-15 सन्त विनोबा भावे वार्ड

- उत्तर -** वेदराम सिदार के घर से मुरली घर यादव के मकान से लाईनपारा पलहीन घर से होते हुए पण्डरी तालाब भरत के मकान होते बेंचु मोहल्ला जोगी राम के मकान से गोपाल गिरी घर मुरली मोहल्ला तथा नित्यानंद घर से बंगाली घर तक।
- दक्षिण -** छ.ग. सायकल सेन्टर से मुख्य मार्ग किनारे होते हुए प्रभु ऑटो, ब्रिज किशोर मिश्रा तथा जमुना प्रसाद गुप्ता के घर से आगे ज्योति ऑटो, मेन रोड़ होते हुए रति राम डनसेना घर से पेट्रोल पम्प तक।
- पूर्व-** शिवटण्डन के मकान से रघुराम के घर होते हुए माया राम के घर से सीताराम के मकान से पण्डरा पखना रोड़ तक तथा पुनीत राम मोहल्ला यादव मोहल्ला सुको राम घर से विमल मिर्रे गुरुजी के घर तक।

पश्चिम – भिष्मो घर से प्राथमिक स्कूल मोहल्ला होते हुए शिवचरण मिर्रे घर से महावीर गुरुजी बंगाली घर से दलसाय मोहल्ला गोपाल घर बोधसिंह महावीर प्रतापसिंह के घर से होते हुए हरिओम शर्मा के मकान होते हुए बुढ़ा सरना एवं कुलदीप फौजी के मकान तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 1-87/2019/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-87/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar the 12th July 2019

NOTIFICATION

No. F 1-87/2019/18.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Pathalgaon, Distt. Jashpur as per schedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Pathalgaon into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	MAHATMA GANDHI WARD
2	AMBEDKAR NAGAR WARD
3	BHAGAT SINGH WARD
4	VIVEKANAND WARD
5	Pt. JAWAHAR LAL NEHRU WARD
6	Dr.RAJENDRA PRASAD WARD
7	LAL BAHADUR SHASTRI WARD
8	SUBHASH CHANDRA WARD
9	SANKARACHARYA WARD
10	SHIVAJI WARD
11	RAJEEV GANDHI WARD
12	CHANDRA SEKHAR WARD

13	RADHAKRISHNAN WARD
14	LOKMANYA TILAK WARD
15	SANT VINOVA BHAVE WARD

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Pathalgaon

Ward no. 01 Mahatma Gandhi Ward

- North :-** B.T.I. chouk se hote huye isdor minj ke makan paskal panna fouzi ghar se dulli ram Bansay ghar se gote huye raha hote huye Benjamin ke makan se road kinare hote huye Deepak ke makan tak.
- South :-** mery tirkky ke makan gote huye poulush telars ke makan awam men road kinare hote huye raut mohalla tak
- East :-** kadam ghat pradeep guruji makan gome makan jaypal makan Josef pradeep makan se hote huye dr. B.L. bhagat ke makan tak.
- West :-** akbar guruji ke makan se julyus makan hote huye jawakhim devra ke makan se piyush ke makan hote huye prathmik school tak.

Ward no. 02 Dr. Ambedkar Nagar Ward

- North :-** Ashadeep se mukhaya marg hote huye prakash school bahadur ke makan se prakash school de pichhe tatha mukhaya marg bahadur ke makan purana murgi farm lakhan gali tak.
- South :-** Dadu ram prithwi ram ke makan buluram kriparam ke ghar hote huye rmesh Sharma ghar tak.
- East :-** anna ram ke ghar se ramdev chouhan ghar hote huye ramcharan patel ke ghar se rohit mire ghar hote huye batau ghar se magho ghar hote huye ram prashad ghar School tak.
- West :-** L.I.C. abhikarta ke ghar dukhiya karma ke ghar se hote huye mukhaya marg hote huye vinod agrawal tent wala ghar tak.

Ward no. 03 Bhagat singh Ward

- North:-** sent jeviyars school se hote huye ashok Sharma ghar se estela ekka budhani kerketta rafail ke makan se hote huye roshan anima toppo kshmir tigga lachhu barwa ke makan se sanjay toppo ke kiraya makan Santana mishan chhatrawas tak.
- South :-** raja ram ghar se vichchhi ghar hote huye poulush ghar hote huye ram laxman ghar tak.
- East :-** vijay lakda ke ghar se mahaveer ke ghar hote huye chanchal pres mohalla tatha shailesh ghar se lekar sagarmal Sharma ghar hote huye Shankar rohila ghar tak.
- West :-** Bahadur khakha se hote huye vimala ghar se hoye huye jitu bhagat ke ghar se mangna lakda ke ghar tak.

Ward no. 04 Vivekanand Ward

- North:-** Sadanand kurre ghar se sohan varman ke ghar se hote huye jiten ghar satayanarayan ghar hote huye kanhaiya ghar chamru ghar dhani ram ghar Bhart ghar bhim ghar jait kham se prathmik shala school tak.
- South:-** khemanidhi choudhri ke ghar se devkumar choudhri ghar se yadav mohalla awam ajay dubey se prma yadav ghar se SDM Gali hote huye balbhadra agrwal ke makan se ravi Sharma goldi jayswal se C.D. jewlars tak.
- East:-** chandram ghar se shobhnath ghar mulchan ghar mohan lal ghar dashi Shankar ghar beer singh ghar uttra pankaj ghar suresh gupta ghar hote huye manglesh ojha ke ghar puk ram ghar chamru ghar se rajesh jagat ram nayak ghar se k.k. patel ghar lse vishwnath sahu ghar hote huye devidyal ke ghar tak.
- West:-** Nitai bangali ghar se revadheevan ghar ganesh Prasad agrawal ghar mukhyamarg hote huye ram lal agrawal ghar awam karmu kaloni hote huye sindar bhatiya ghar se sentral bank se mukhyamarg kinare hote huye munna maharaj se trilok Sharma ghar tak.

Ward no. 05 Pt. Jawahar lal Nehru Ward

- North :-** jagtu mohalla se kumhar ghar hote huye raja ram ke kiraya mkan se ram niwas kirana dukan se manger agrwal kirana dukan se puja sentrig plet ghar tak.
- South :-** shyamlal sahu ghar se sohrai mohalla se sona ram budhram makan tak.
- East :-** Sringerika kaloni se ram charan agrawal ghar hote huye durga mandir se anand Sharma ghar se chkrawarti mohalla se pawan shrma ke ghar se basant Sharma ke ghar mukhaymarg kinare hote huye ashirwad garment se vinod arawal ke age kachcha makan tak.
- West :-** Hubuchan ghar jhagoram ghar hote huye charch kaloni darash ghar patar say ghar se malik ghar chhandu kutiya ghar lagun se shayam lal baghel ghar tak.

Ward no. 06 Dr. Rajendra Prasad Ward

- North :-** raj auto ke meel se chat ram ghar mahaveer Sharma ke ghar hote huye johan ke ghar se babulal ghar thakur ram ghar awam Mahesh ke ghar hote huye angan badi samudayik bhawan tak.
- South :-** Jhadi ram ghar se charch hote huye chitru ram ghar se naya makan se prem khakha ke makan tak.
- East :-** Dhumra ghar se gesh ram ghar hote huye ronha ghar amrit minj se prabhadhari semanoj agrawal ghar hote huye vikash nagar tatha sukul kaloni tak.
- West :-** Chammu mohalla se imanvel l.i.c. wala ghar bahal say ghar prathmik shala school tak.

Ward no. 07 Lal Bahadur Shashtri Ward

- North :-** bijali office se pritma tower se bajrang ghar hote huye santoshi mandir mohalla hanuman agrawal ghar se merkhalo maidam ke ghar tak.
- South :-** Balram ghar se chandi bai ghar se navin jogpal school hote huye gahira asram tak.

- East :-** Chandrabhan agrawa ke ghar hote huye ajit khes ghar se mya ram ghar chouhan mohalla se satish bada ghar tak तथा ghurau mohalla hote huye jalsay guruji ghar men road se schita ghar mohan mohalla se prakash ghar tak.
- West :-** Harihar ghar se amrit mohalla bachcha singh se samuyel tigga se dilsay mohalla tak.

Ward no. 08 Subhas chandra Ward

- North :-** Muslim gairej se sharda mandir Shyamsundar sinha ke makan hote huye gunwant ray nam dev ke ghar ramesh ram kishan ghar se dhurin rajak se dalpati say ghar hote huye nirakar ghar prasanna ghar sidar ghar mant ram chouhan ramesh lal chetwani ka makan hote huye kalawati ke makan shyamsundar sahu तथा harish mehra ke ghar se manoj boje ke ghar tak.
- South :-** Ranjeet ekka ghar balak ghar mohan mohalla hote huye sardar ghar se mukhayamarg thuiya ram tak.
- East :-** Sunita ekka ghar se devsa y ghar se amar say ghar se suraj tirki ghar se mukhaymag hote huye sukhath ghar se balku ghar se manl say ghar hote huye biskut faictory se mukhayamarg hote huye sukti para indal ghar se sarsmal road sidar ghar tak.
- West :-** Rajendra ekka mohalla se heera minj filisita tirki ghar se l.d. chetwani ghar se shishir ghar mohalla se mithlesh ghar chandrashekhar tripathi complex se mukhayamarg hote huye pradeep gupta ghar se shivkumar ghar se laxmi kant soni ghar hote huye ray sar ghar se bhuneshwar sinha ghar tak.

Ward no. 09 Shankarachary Ward

- North :-** Srawan pandey ghar se anwar ali ghar ramashankar dansena ghar se hote huye public school colony se Ishwar Prasad gupta ghar se bhodli ghar hote huye beer singh Dansena ghar se vijay Inden gais godam se rajendra rohila ghar tak.
- South :-** Sadanand maître ghar se radheshyam maître ghar se hote huye kenda ghar kujur ghar se kadam kinare agam say ghar sesita giri ghar se hoye huye santosh vishwakarma chattan para mira pradhan ashok nikunj ghar tak.
- East :-** Seva bharti ghar se lal say ghar se Shankar sidar ghar hote huye mohammad altab mohalla se nijamuddin ghar masjid mohalla se niranjan ke kiraya makan tak.
- West :-** Niranjana samant ghar idea tower se pashu chikitshalalay se S.D.O. arigesan Quarter se P.W.D. karyalaya se parsram bhoy Quarter se niral Quarter se C.I.D. bhagat ghar tak.

Ward no. 10 Shivaji Ward

- North :-** karam chand agrawal complex se purana tahsil mandi shani mandir jimmy laj jogdhyam agrawal ghar van vibhag ke pichhe mohalla tak.
- South :-** kulomani sahu ghar se ravikant Sharma mashala vala ghar hote huye patwari ghar dropdi maidam littil rose school hote huye namdev ghar Sharma ghar sushhil ghar ashok harikishan makan bijali office tak.
- East :-** purana nagar panchayat karayalay se tarachand samant ghar satayanarayan ghar nishamuddin ghar se vedprakash mishra ghar hote huye mukhayamarg se vijay medical lanjiyapara road dubey ghar se fekan bai ghar tak.

West :- shaskiya kanya chhatrawas se anganbadi shaskiya Quarter se B.R.C. bhawan rampratap agrawal ke ghar se hote huye mukhayamarg harnam singh ke ghar se koyla factory vishwanath Sharma ghar se hotye huye lakhapat ray ghar se sabun factory ke age tak.

Ward no. 11 Rajeev gandhi Ward

North :- Prathmik swasthya Kendra se Dr. jems minj ghar hoye huye mahant ghar manjeet bhatiya anup jindal preetpal L.I.C. bhawan tak.

South :- Sindar singh bhatiya ke ghar se harjeet singh pawan agrawal sanjeev kumar yadav ghar se age papal ped tak.

East :- Atma ram saw ghar se hotye huye hanuman mandir vindeshwri Sharma makan ke pichhe baldev rajat balram agrawal ke makan se devendra singh ke makan se upar masjid mohalla hoye huye blk ram yadav ke ghar se rohit patnayak ghar tak patel ghar tirki nars dakhal mohalla sahu ghar harilal ghar dilbodh ghar thana parisar tak.

West :- prathmik shala purana bajar para bhawan se mukhayamarg kishor rajkumar loha dukan se sosayiti shishu mandir jayanti minj van vibhag Quarter swasthya vibhag arjun gupta swarn singh tatha patnayak ke makan se mohammad hafij ghar tak tatha prahlad rohila janpad panchayat colony se tasildar bangle bas stand se pusp vatika jogpal children school State bank anil petrol pamp tak.

Ward no. 12 Chandra shekher Ward

North :- Bhimsen patel ghar se mahant ghar dayashankar pandey ghar hote huye shard singh ghar tiwari makan Dr. basant singh thakur ke makan se hote huye swarankar guruji ke makan tak.

South :- Leeta ram ghar se ghurau ke bhawan banmali ke makan se hoye huye khiti bhushan ka makan manbodh ke makan se prmadass tatha murli thakur ke makan se prem singh ghar tak tatha bagan chouhan ghar tak tatha jay Prasad ghar hote huye kundan ghar mohammad muskan tak.

East :- mohan ke ghar se hote huye dev singh ke makan faguram ke makan shiva draiver ke makan tak tatha bhan singh ke makan se jagarnath mandir hote huye padaman ke makan bhan singh ke kiraya makan ghansi ram ke makan hoye huye children school se ashok ghar se madhayamik shala purani basti tak.

West :- Dular sai ke makan se dhoba ghar se sohan ghar se bahadur guruji ke makan tak tatha malti bai ghar se bhagat vaishnav ke makan ghote huye manoj patnayak ke ghar tak tatha viranchi ghar se uma banjarin ghar hoye huye gupta mohalla se ram lal ghar babulal ke ghar se china ghar mange arawal ke ghar tak.

Ward no. 13 Radhakrishna Ward

North :- Shankar thakur ghar se ramesh ghar surya chouhan ghar se dwari ghar tak tatha shanti chouhan ghar se pawan vishwakarma ghar hote huye maraj vishwakarma ghar hote huye umesh ghar se prathamik school tak.

- South :-** O.P. gupta ghar se ghasiya ram patel ghar public school mohalla hote huye jamuna ghar se anwar ali ke makan se premnagar lunda ram laghu ram prabhuram ghar se vitan ghar maniram ghar se shobhnath gupta ghar hote huye road kinare bhaiya ram dev sai ghar se baba maharaj ke ghar tak.
- East :-** Sunil mishra ghar se road kinare hote huye amar das vaisnav ghar se shivmandir hote huye gupta kirana dukan se dugadh deyari tak.
- West :-** shakuntala namdev ghas se ghurau namdev hote huye surajmani ghar tak तथा firni vishawakarma ghar se ram Prasad sidar ghar ratu ram yadaw chetwani ka kiraya makan तथा badruddin ke makan ram kumar patel ke ghar se tikaram ghar awam girdhari ghar se sadanand maître ke ghar tak.

Ward no. 14 Lokmany Tilak Ward

- North :-** sumitra thakur ghar se mukhya marg hote huye satyanarayan ke meel se jitan guruji ke ghar hote huye vidhya tiwari yadunath yadav devesh agrawal ghar se hote huye ayushi motors part gurukul jaykishan ghar hote huye shahagal tractor work shop tak.
- South :-** bodh say ke makan se road kinare sahdev ke ghar vijay ke makan ram Prasad ke ghar se ramnand ghar se mahadeva mikchar dukan dashrath gupta se kanti sidar ghar tak.
- East :-** gendalal patel ghar se hote huye ramprasad soni ghar hote huye chouhan mohalla anganbadi bhawan se vihanu ghar se nanhu ghar तथा ganga ram patel kawaldhar premanand hundaru hiralal yadav ke age se jeewan la l ghar manohar patel baldev nayak तथा gupta ke makan se I. toppo ke makan muktidham grih nirman mandal तथा gurukul college ke pichhe mohalla tak.
- West :-** madhur say ke makan se munna ghar se vidhayak ke ghar se vijay patel ghar tak तथा deepa ghar se hote huye thakur ghar se suwan ghar se sukhnandan ghar satynarayan jay telor vineswar gupta ghar तथा rewa ghar se hote huye ashok gupta ke ghar mithu ghar se sarthi mohalla तथा nirmla sidar ghar se sarthi mohalla se age kaleshwar ke makan tak.

Ward No. – 15 Sant Vinova Bhawe Ward

- North -** Ved Ram Sidar ke Ghar se Murli Yadav ke Makan se Linepara Palhin Ghar se hote huve Pandry talab, Bharat ke makan hote huye Bechu Mohlla, Jogi Ram ke Makan, Gopal Giri Ghar, Murli Mohlla, Nityanand Ghar se Bangali Ghar tak.
- South -** C.G. Cycle Center se Mukhya marg kinare hote huye Prabhu Auto, Brij Kishor Mishra तथा Januna Prasad Gupta Ghar se Age Jyoti Auto, main Road hote huye Rati Ram Dansena Ghar, Petrol Pump tal.
- East. -** Shiv Tandan ke makan se Raghu Ram ke ghar hote huye Maya Ram ke ghar se sitaram ke makan se Pandra Pakhna Road tak, Punit Ram Mohlla Yadav Mohlla, Suko Ram Ghar se Vimal guruji ke Ghar tak.
- West -** Bhishmo ghr se Prathmik School Mohlla hote huye Shivcharan Mirre Ghar, Mahaveer Guruji Bangali Ghar se Dalsay Mohlla, Bodh Singh. Pratap Singh. Ke ghar se hote huye Hariom Sharma ke makan hote huey budha Sarna evam Fauji ke makan tak.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh
R. EKKA, Deputy Secretary.